

### SATIN CREDITCARE NETWORK LTD.

Reaching out!

October 28, 2023

To, The Manager, National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400051

The Manager, BSE Limited 25<sup>th</sup> Floor, P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001

Symbol: SATIN

Scrip Code: 539404

Sub: Submission of copies of Published Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2023

Dear Sir/Madam,

In continuation to our intimation dated October 27, 2023, we hereby enclose copies of the Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2023 published on October 28, 2023 in Business Standard (English and Hindi).

This is for your information and record.

Thanking You.

Yours faithfully, For Satin Creditcare Network Limited

(Vikas Gupta)
Company Secretary & Chief Compliance Officer

Encl: a/a

CIN : L65991DL1990PLC041796 Landline No : 0124-4715400

E-Mail ID : info@satincreditcare.com
Website : www.satincreditcare.com

## Wheat sowing off to a brisk start

New Delhi, 27 October

owing of wheat and other main rabi crops - namely mustard and chana has started on a brisk note, according to initial reports. This is mainly owing to favourable weather and firm prices.

According to the latest preliminary data by the Union ministry of agriculture, wheat has been sown in around 0.38 million hectares till October 27. This is almost 80 per cent more than the area covered during the same period last year.

Most of the acreage jump has come from poll-bound Madhya Pradesh, which is normally the first to sow and harvest wheat among major growing states.

Good prices of wheat in the retail markets and a steep hike in minimum support price (MSP) could also be counted as factors that could be influencing farmers' planting decisions. A healthy rabi harvest, particularly that of wheat, mustard and chana, could help cool down food inflation and keep prices under check. This is critical for the government as it approaches the big 2024 General Elections.

Among other crops, data showed that pulses has been sown in around 1.67 million hectares till October 27, which is 11.33 per cent more than the area covered during the same period last year. Chana (gram) is the As all-India average retail onion price shoots largest pulses grown during the rabi season.

Oilseeds, which is mainly mustard, has been sown in around 2.84 million hectares till October 27. This is 15.45 per cent more than the previous year.

### Govt increases bid quantity to 200 tonnes under OMSS

The government on Friday increased the bid quantity under the open market sale scheme (OMSS) for wheat offered from the central pool to 200 tonnes. This is with effect from November 1 and the move may further stabilise prices of wheat and wheat flour.

To boost supply of wheat in the domestic market, bulk buyers like flour millers, and small traders can now bid for 200 tonnes in e-auction against 100 tonnes currently

The Food Corporation of India (FCI), the government's nodal agency for procurement and distribution of food grains, is offloading wheat from its buffer stock under the OMSS.

Consequently, the total quantity offered per e-auction across the country has also been increased from 0.2 million tonnes to

0.3 million tonnes, the statement said. Increase in the bid quantity is aimed at sold to 2,318 successful bidders.

**Particulars** 

Exceptional and/or Extraordinary items\*)

Net Profit / (Loss) for the period before tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items Net Profit / (Loss) for the period after tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items\* Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period

after tax) and Other Comprehensive

Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the

10 Outstanding Redeemable Preference Shares

12 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt

Earnings Per Share (₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations)

Capital Redemption Reserve

Debt Service Coverage Ratio 17 Interest Service Coverage Ratio

**Particulars** 

Profit / (Loss) Before Tax

Profit / (Loss) After Tax

Total Income

Debenture Redemption Reserve

Ind-AS Rules/AS Rules, whichever is applicable

ncome (after tax)]

previous year

Net Worth

11 Debt Equity Ratio

16

No.


Notes:

Paid up Equity Share Capital

Securities Premium Account

Total Income from operations





### Onion price rises 57%; govt steps up buffer sale at ₹25 per kg

up by 57 per cent to ₹47 per kg, the Centre on Friday decided to step up the sale of buffer onion at a subsidised rate of ₹25 per kg in retail markets in order to provide relief to consumers. The all–India average retail price of onion rose to ₹47 per kg on Friday, from ₹30 per kg in the year-ago period, as per the data maintained by the consumer affairs ministry. In the national capital, retail price of onion was at ₹40/kg on Friday as against ₹30/kg in the year-ago period, the data showed.

"We have been offloading buffer onions since mid-August and stepping up the retail sale in order to check further rise in prices and provide relief to the consumers," Consumer Affairs Secretary Rohit Kumar Singh said.

enhancing the availability of wheat in the open market and to further stabilise the prices, it said. The FCI has been selling wheat and rice from the central pool to bulk buyers such as flour millers and small traders under the OMSS since June 28. It is done through a weekly e-auction to control the retail prices of these commodities

In the 18th round of e-auction on October 26, about 0.19 million tonnes of wheat was

(₹ in Lakhs except EPS)

Year

ended

March 31

Audited

1,55,902.33

524.07

524.07

481.31

(1,585.36)

8,479.63

,54,332.81

Nil

3.66

0.62

2,777.00

Year ended

March 31,

Audited

1.76.154.48

34,100.04

26,432.92

Half Year

ended

September 30, 2023

Unaudited

99,736.17

26.062.94

26,062.94

19,464.96

18,432.36

9,920.66

3.86

21.20

2,777.00

7,28,286.94 5,91,124.74

CIN:L65991DL1990PLC041796 Regd. Office: 5th Floor, Kundan Bhawan, Azadpur Commercial Complex, Azadpur, Delhi-110033 Corporate Office: Plot No. 492, Udyog Vihar, Phase-III, Gurugram, Haryana-122016, India Phone: 0124-4715400, Website: www.satincreditcare.com, E-mail: secretarial@satincreditcare.co

Quarter

ended

Septembe

Unaudited

53,848.44

14.308.56

14,308.56

10,677.65

10,792,83

9,920.66

Nil

3.86

10.93

2,777.00

September 30,

32,505.12

7,141.87

5.462.04

\*Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit & Loss in accordance with

Brief of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2023 Quarter ended Quarter ended

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors

The above is an extract of the detailed format of Results filed with the Stock Exchange(s) under

Regulations 33, 52 & 63 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('the Listing Regulations'), as amended from time to time. The full format of the Results are

available on the website of the Company (i.e. www.satincreditcare.com) and on the websites of the

For the other line items referred in Regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures

have been made to the Stock Exchange(s) and can be accessed through the website link given in point These Consolidated Results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards

of Satin Creditcare Network Limited ('the Company') in their meeting held on October 27, 2023.

September 30,

49.193.51

13,834.63

10.326.67

Stock Exchange(s) (i.e. NSE at www.nseindia.com and BSE at www.bseindia.com).

7,28,286.94 5,53,377.54

Quarter

ended

Septembe

30, 2022

Unaudited

36,069.54

7.475.12

7,475.12

5,719.55

5,692.95

7,869.38

1,23,993.60 | 1,09,378.24 | 1,23,993.60 | 1,13,726.31

1,89,749.48 | 1,31,153.73 | 1,89,749.48 | 1,55,390.84

3.84

7.61

Not Applicable Not Applicable

Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable

Half Year ended

September 30.

90.912.49

25,321.77

18,918.00

For Satin Creditcare Network Limited

**Chairman cum Managing Director** 

(Harvinder Pal Singh)

DIN: 00333754

2,777.00

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2023

### **BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LIMITED**

CIN: L65100PN1945PLC004656

Registered Office: C/o Bajaj Auto Limited Complex, Mumbai - Pune Road, Akurdi, Pune - 411 035 Corporate Office: 6th Floor, Bajaj Finserv Corporate Office, Off Pune - Ahmednagar Road, Viman Nagar, Pune - 411 014 Website: www.bhil.in | E-mail ID: investors@bhil.in | Telephone: +91 20 7157 6066

### Extract of unaudited consolidated financial results for the quarter and half year ended 30 September 2023

| Sr.<br>No. | Particulars  | Quarter ended<br>30.09.2023<br>(Reviewed) | Half year ended<br>30.09.2023<br>(Reviewed) | Quarter ended<br>30.09.2022<br>(Reviewed) |  |
|------------|--|---|---|---|--|
| 1          | Revenue from operations  | 224.73                                    | 328.80                                      | 187.60                                    |  |
| 2          | Profit before tax  | 1,661.95                                  | 3,095.97                                    | 1,355.71                                  |  |
| 3          | Profit for the period (attributable to owners of the company)                        | 1,491.16                                  | 2,906.66                                    | 1,242.79                                  |  |
| 4          | Total comprehensive income (attributable to owners of the company)                   | 2,068.75                                  | 5,800.71                                    | 3,595.73                                  |  |
| 5          | Paid-up equity share capital   | 111.29                                    | 111.29                                      | 111.29                                    |  |
| 6          | Other equity (as shown in the Balance Sheet of previous year)                        |   | 44,071.49                                   |   |  |
| 7          | Basic and diluted earnings per share (₹)  (not annualised) (Face value of ₹ 10 each) | 134.0                                     | 261.2                                       | 111.7                                     |  |

| Sr.<br>No. | Particulars       | Quarter ended<br>30.09.2023<br>(Reviewed) | Half year ended<br>30.09.2023<br>(Reviewed) | 30.09.2022 |
|------------|-------------------|---|---|------------|
| 1          | Total income      | 1,678.92                                  | 1,792.47                                    | 1,636.98   |
| 2          | Profit before tax | 1,642.85                                  | 1,716.11                                    | 1,598.16   |
| 3          | Profit after tax  | 1,571.27                                  | 1,626.53                                    | 1,574.00   |

Note: The above is an extract of the unaudited financial results for the quarter and half year ended 30 September 2023 which have been reviewed by the Audit Committee, approved by Board of Directors at its meeting held on 27 October 2023, subjected to limited review by statutory auditors and filed with the stock exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the aforesaid financial results is available on the website of the Company, BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited i.e. www.bhil.in, www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

> By order of the Board of Directors For Bajaj Holdings & Investment Limited

Pune 27 October 2023



**Managing Director & CEO** 

Sanjiv Bajaj





## **SBI CARDS AND PAYMENT** SERVICES LIMITED

Regd Office: Unit 401 & 402, 4th Floor, Aggarwal Millennium Tower, E 1,2,3 Netaji Subhash Place, Wazirpur, New Delhi - 110034. Tel: 0124-4589803, CIN: L65999DL1998PLC093849, E-mail: investor.relations@sbicard.com, Website: www.sbicard.com

### EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023

(₹ in Crores, except per share data)

|         | Particulars   | Quarter Ended                     |                                   | Half Year Ended                   |                                   | Year Ended                  |  |
|---------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| Si. No. |   | September 30, 2023<br>(Unaudited) | September 30, 2022<br>(Unaudited) | September 30, 2023<br>(Unaudited) | September 30, 2022<br>(Unaudited) | March 31, 2023<br>(Audited) |  |
| 1.      | Total Income from Operations  | 4,087.35                          | 3,297.08                          | 7,999.00                          | 6,397.38                          | 13,666.64                   |  |
| 2.      | Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)  | 809.41                            | 705.65                            | 1,606.04                          | 1,546.57                          | 3,030.57                    |  |
| 3.      | Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)   | 809.41                            | 705.65                            | 1,606.04                          | 1,546.57                          | 3,030.57                    |  |
| 4.      | Net Profit for the period after tax<br>(after Exceptional and/or Extraordinary items)   | 602.98                            | 525.64                            | 1,196.38                          | 1,152.55                          | 2,258.47                    |  |
| 5.      | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 604.73                            | 530.46                            | 1,193.28                          | 1,146.31                          | 2,255.63                    |  |
| 6.      | Paid up Equity Share Capital, Equity share of ₹10/- each  | 946.74                            | 943.34                            | 946.74                            | 943.34                            | 946.07                      |  |
| 7.      | Reserves (excluding Revaluation Reserve)  | 10,111.50                         | 7,975.65                          | 10,111.50                         | 7,975.65                          | 8,883.99                    |  |
| 8.      | Earnings Per Share (of ₹10/- each)<br>(not annualised for quarters):<br>1. Basic (₹):<br>2. Diluted (₹):                            | 6.37<br>6.35                      | 5.57<br>5.53                      | 12.64<br>12.60                    | 12.22<br>12.13                    | 23.92<br>23.80              |  |


- a. The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and half year ended September 30, 2023 filed with the stock exchange(s) under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results is available on the website of the stock exchange(s) (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and can also be accessed on the website of SBI Cards and Payment Services Limited (www.sbicard.com).
- b. For disclosure under Regulation 52(4) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please refer to the full format of the financial results available on the websites of the stock exchange(s) and the Company, as mentioned above.
- c. The financial statements have been prepared in accordance with applicable Ind AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards)
- d. During the half year ended September 30, 2023, the Company has allotted 660,870 equity shares of ₹10/- each pursuant to exercise of options under the approved employee stock option scheme.

Place: Gurugram Date: October 27, 2023 Abhijit Chakravorty Managing Director & CEO DIN:- 09494533

Place: Gurugram

Date: 27.10.2023







(IND-AS) notified by the Ministry of Corporate Affairs.

एस.सी.ओ. 70, सेव टर—5, पंचकुला—134109 टेलीफोन : 0172—2573570, फैक्स सं.: 0172—2585707 इंगेल : abl.51519@abl.co.in

मांग सूचना

के प्रतिभूतिकरण एवं पुनिर्निर्माण और प्रतिभू यम, 2002 की घारा 13(2) के तहत सूचन

सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं )/गारंटर(ऑं) ने बैंक से उनके द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं के मूलधन और ब्याज के पुनर्मृगतान में चूक की है और उक्त सुविधाएं 04.06.2021 को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां बन गई हैं। वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा र्पूर्ति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत उधारकर्ता(ओं )/गांटर(ओं) को उनके अंतिम ज्ञात पते पर पंजीकृत/स्पीड द्वारा सूचना जारी कि गई थी तथापि, सूचनाओं को बिना दिए गए/वितरित नहीं किए गए असेवित वापस लोटी दिया गया, इसलिए उन्हें इसके बारे में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) का नाम संपत्तियों का विवरण/प्रवर्तित होने वाली प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का पता उधारकर्ता(ओं):-- (1) श्याम इंडोफैब अनुसूची 'अ':-- क्र.सं.:1, सुविधा की **06.10.2023** 04.06.2021 प्राइवेट लिमिटेड (निदेशक), 1212 ए, प्रकार : अवधि ऋण : 06.10.2023 की स्थिति के अनुसार बकाया 12वां तल, चिरनजीव टॉवर, 43, नेहरू ब्याज, रुपये 4,45,86,205.38; अनुप्रयुक्त ब्याज: रु 07.10.2023 से भवि पैलेस, नई दिल्ली-110019 (2) 1,05,25,102/-, कुल: रुपये 5,50,91,307.38, क्र.सं. 2; सुविधा श्याम इंडोफेब प्राइवेट लिमिटेड की प्रकार : GECL 2.0; 06.10.2023 की स्थित के अनुसार बकाया (निदेशक), मकान सं. 1073, <mark>ब्याज, रु</mark>पये 80,97,189.82; **अनुप्रयुक्त ब्याज:** रु. 5,78,144/–

से कटर-2, पंचकु ला, हरियाणा कुल: रुपये 86,75,333.82, क्र.सं. 3; सुविधा की प्रकार : एफआईटीएल; 06.10.2023 की 134107, गारंटर(रॉ) :- श्री संदीप स्थिति के अनुसार बकाया ब्याज, रुपये 36,70,087/-; अनुप्रयुक्त ब्याज : रु. 6,90,790/-; 5,10,851/-कुल:रुपये 51,10,851/-कुल-रुपये 7,32,38,369.20

अनुसूची 'ब':— दस्तावेजों की सूची (सभी पूरक दस्तावेजों और बंधक के निर्माण से संबंधित दस्तावेजों सहित सुरक्षा दस्तावेजों का विवरण)

क्र.सं. :1, दस्तावेज का नाम : अवधि ऋण सुविधा समझौता; निष्पादन की दिनांक : 11.10.2013; प्रत्याभूति राशि (रु.) : रु 50.00.00.000/—, **क्र.सं. : 2. दस्तावेज का नाम :** हाइपोथेकेशन का संयुक्त विलेख दिनांकित; **निष्पादन की दिनांक :** 11.10.2013; प्रत्याभति राशि (रू.) : रु. 50.00.00.00.000/**– क्र.सं. :३. वस्तावेज का नाम** : पारस्परिक समझौता: **निष्पादन की दिनांक :** 11.10.2013 प्रत्याभूति राशि (रु.) : रु. 50,00,00,000/—क्र.सं. :४, दस्तावेज का नाम : क्षतिपूर्ति; निष्पादन की दिनांक : 11.10.2013; प्रत्याभूति राशि (रू.) : रु. 50,00,00,000/—क्र.सं. :**५, दस्तावेज का नाम :** सामान्य गारंटी विलेख: निष्पादन की दिनांक : 11,10,2013; प्रत्यामंति राशि (रु.) : रु. 50,00,00,000/— क्र.सं. :७, दस्तावेज का नाम : सामान्य गारंटी विलेख ; निष्पादन की दिनांक : 11.10.2013; प्रत्याभूति **राशि (रु.)** : रु. 50,00,00,000/— **क्र.सं. : ७, वस्तावेज का नाम :** सभी कंसोर्टियन सदस्य बैंक के पक्ष में कंपनी द्वारा निष्पादित पुनर्गठ समझौता; निष्पादन की दिनांक : 04.08.2021; प्रत्याभूति राशि (रु.) : रु. 196,16,00,000/- (5,92,00,000/-), क्र.सं. : 8, दस्तावेज का नाम : हाइपोथेकेशन का विलेख; निष्पादन की दिनांक : 04.06.2021; प्रत्याभूति राशि (रू.) : रु. 196,16,00,000/ (5,92,00,000/—), क्र.सं. :**9, दस्तावेज का नाम** : लीड बैं क के पक्ष में कंपनी द्वारा निष्पादित एस्क्रो समझौता; **निष्पादन की दिनांक** 04.06.2021; प्रत्याभूति राशि (रू.) : रु. 196,16,00,000/- (5,92,00,000/-) क्र.सं. :10, दस्तावेज का नाम घोषणा—सह—वचन; **निष्पादन की दिनोंक :** 04.06.2021; प्रत्याभूति राशि (रु.) : रु. 196, 16,00,000/—(5,92,00,000/—) क्र.सं. **11, दस्तावेज का नाम :** संदीप गुप्ता द्वारा निष्पादित शेयरों की गिरवी के लिए समझौता; **निष्पादन की दिनांक :** 04.06.2021; **प्रत्याभूति राशि** (रु.) : रु. 196,16,00,000/— (5,92,00,000/—), क्र.सं. :12, दस्तावेज का नाम : अग्रणी बैं क के रूप में बैंक ऑफ इंडिया के साथ कंपनी द्वारा सृजित न्यायसंगत बंधक ; निष्पादन की दिनांक : 04.06.2021; प्रत्याभूति राशि (रु.) : रु. 196,16,00,000/— (5,92,00,000/—) **क्र.सं. : 13, दस्तावेज का नाम :** एसबीआई बैंक सहित सभी कसोटियमें उधारदाताओं के पक्ष में : **निष्पादन की दिनांक** 04.06.2021; प्रत्याभूति राशि (रु.) : रु. 196,16,00,000/— (5,92,00,000/—) क्र.सं. :14, दस्तावेज का नाम : समझौता; निष्पादन की दिनांक: 25.03.2022; प्रत्याभृति राशि (रू.): रु. 10,05,00,000/-(46,00,000/-), क्र.सं.: 15, दस्तावेज का नाम पारस्परिक समझौता; निष्पादन की दिनांक : 25.03.2022; प्रत्याभृति राशि (क.) : रु. 10,05,00,000/— (46,00,000/—), क्र.सं :16, दस्तावेज का नाम : पूरक ऋण सह हाइपोथेकेशन; निष्पादन की दिनांक : 25.03.2022; प्रत्याभृति राशि (क.) : रु 10,05,00,000/— (46,00,000/—), **क्र.सं. : 17 , दस्तावेज का नाम :** अग्रणी बैं क के रूप में बैंक ऑफ इंडिया के साथ कंपनी द्वारा सुजित न्यायसंगत; **निष्पादन की दिनांक :** 13.04.2022; **प्रत्याभूति राशि (रु.) :** रु. 10,05,00,000/−(46,00,000/−)

एसबीआई प्रलेखन – क्र.सं. : 1; दस्तावेज का नाम : व्यवस्था का पत्रे; दिनांक : 13.01.2021; प्रत्योभूत राशि (रु.): रु. 6,99,00,000/ के.सं. : 2; दस्तावेज का नाम : गारंटी समझौता; दिनांक : 13.01.2021; प्रत्याभूत राशि (रू.): रु. 6,99,00,000/— अनुसूची 'ग':— भाग–I, (चल संपत्तियों का वृष्टिबंधक) उधारकर्ता की चल योग्य संपत्ति जिसमें उसके चल संयंत्र और मशीनरी, मशीनरी के पुजों,

उपकरण और सहायक उपकरण और अन्य चल वस्तएं शामिल हैं : चाहे वे स्थापित हों या नहीं और जो अब ढीले पड़े हैं या मामलों में हैं या जो अब पड़ी हुई हैं या संग्रहीत हैं या इसके ब Iद समय—समय पर उधारकर्ता के सभी कारखानों में या उसके आसपास संग्रहीत की जाएंगी। परिसर और गोदाम या जहां कहीं भी यह किसी भी पार्टी द्वारा आयोजित किया जा सकता है या हो सकता है।

भाग—II :-- **(अचल संपत्तियों का न्यायसंगत बंघक)** — बंधक दस्तावेजों /विलेखों (अनुसची ख) के संदर्भ में दस्तावेजों में उल्लेखित अनुसार बैंक के प ास गिरवी रखी गई अचल संपत्तियां। उघारकर्ता श्याम इंडोफैब प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वामित्व और गिरवी रखी गई संपत्ति :— ( 1) प्लॉट नंबर टी 1 में स्थित भूमि और भवन, अतिरिक्त अमरावती औद्योगिक क्षेत्र (टेक्सटाइल जोन), अमरावती नगर परिषद ग्रामीण क्षेत्र में 60030 वर्ग मीटर की लंबाई के साथ संयंत्र और मशीनरी (2) प्लॉट नंबर टी 1 (भाग), अतिरिक्त अमरावती औद्योगिक क्षेत्र (कपड़ा क्षेत्र) में स्थित भूमि और मवर मरावती नगर परिषद ग्रामीण क्षेत्र में 40,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और उस पर संयंत्र और मशीनरी लगाई गई है।

उपर्युक्त उधारकर्ता(ऑ)/गारंटर(रॉ) को सूचित किया जाता है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के मीतर नोटिस में उल्लेखित रारि का भुगतान करें और ऐसा न करने पर हम वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत सभी या किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करेंगे।

इसके अलावा, उधारकर्ता/गारंटर (ओं) को। हममारीर पूर्व सहमति के बिना किसी भी तरीके से ऊपर उल्लेखित उपरोक्त प्रत्याभूत परिसंपत्तियों में से किसी भी निपटने से रोका जाता है। यह विषय अधिनियम और/या लागू किसी अन्य कानून के त हत हमें उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है। आपका ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी अधिनयम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकषत किया जाता है। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि धारा 13(13) के संदर्भ में उधारकर्ता/गारंटर प्रत्याभूत ऋणदाता की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना अनुसूची बी में उल्लेखित उक्त सु रक्षित परिसंपत्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित नहीं करेगा। आपके घ्यान में यह भी लाया गया है कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत यथा उपबंधित इस सांविधिक आदेस/प्रतिबंध का कोई भी उल्लंघन एक अपराध है और यदि किसी कारण से , प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को व्यवसाय के सामान्य क्रम में बेचा या पट्टे पर दिया जाता है , तो बिक्री आय या प्राप्त आय को सुरक्षित लेनदार के पास जमा किया जाएगा। इस संबंध में आपको ऐसी प्राप्ति / आय का उचित लेखा—जोखा प्रस्तुत करना होगा।

दिनांक : 27.10.2023

Particular:

Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,

Exceptional and/or Extraordinary items\*) Net Profit / (Loss) for the period before tax

Net Profit / (Loss) for the period after tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items#

Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period

Reserves (excluding Revaluation Reserve)

as shown in the Audited Balance Sheet of the

Outstanding Redeemable Preference Shares

(for continuing and discontinued operations)

Paid up Debt Capital / Outstanding Debt

Earnings Per Share (₹ 10/- each)

Capital Redemption Reserve

Debt Service Coverage Ratio

17 Interest Service Coverage Ratio

Debenture Redemption Reserve

after tax) and Other Comprehensive

Paid up Equity Share Capital

Securities Premium Account

Income (after tax)]

previous year

Debt Equity Ratio

Net Worth

Basic:

9

10

13

14

15

Total Income from operations

स्थान : पंचकुला

SATIN CREDITCARE NETWORK LIMITED

CIN:L65991DL1990PLC041796

Regd. Office: 5<sup>th</sup> Floor, Kundan Bhawan, Azadpur Commercial Complex, Azadpur, Delhi-110033 Corporate Office: Plot No. 492, Udyog Vihar, Phase-III, Gurugram, Haryana-122016, India Phone: 0124-4715400, Website: www.satincreditcare.com, E-mail: secretarial@satincreditcare.com

Quarter

ended

Septembe

30, 2023

Unaudited

53.848.44

14.308.56

14,308.56

10,677.65

10.792.83

9,920.66

3.86

10.93

10.93

2,777.00

Quarter

ended

Septembe

30, 2022

Unaudited

36,069,54

7.475.12

7,475.12

5,719.55

5.692.95

7,869.38

1,23,993.60 1,09,378.24 1,23,993.60 1,13,726.31

1,89,749.48 | 1,31,153.73 | 1,89,749.48 | 1,55,390.84

7,28,286.94 | 5,53,377.54 | 7,28,286.94 | 5,91,124.74

Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable

Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable

Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable

3.84

7.61

7.12

2,777.00

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the

Quarter and Half Year ended September 30, 2023

### 27 अक्टूबर 2023 तक रबी की नई दिल्ली, 27 अक्टूबर फसल की बोआई (लाख हेक्टेयर) •हं सहित रबी की अन्य फँसलों सरसों और चने की फसल 2023-24 2022-23 % बदलाव

बोआई तेज रही है। गेहूं 3.8 2.1 शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक 15 कीमत तेज रहने और अनुकूल 16.7 मौसम के कारण बोआई को लेकर मोटे अनाज 4.3 6.4 उत्साह है। तिलहन 28.4 24.6 केंद्रीय कृषि मंत्रालय के ताजा शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक 27

अक्टबर तक 3.8 लाख हेक्टेयर स्रोतः भारत सरकार रकबें में गेहं की बोआई हो चकी है। कि अन्य फसलों में दलहन की यह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 80 प्रतिशत ज्यादा है। बोआई का रकबा 27 अक्टूबर तक रकबे में ज्यादातर बढोतरी मध्य 16.7 लाख हेक्टेयर रहा है, जो प्रदेश में हुई है, जहां इस साल चुनाव पिछले साल की समान अवधि की होने हैं। मध्य प्रदेश में सामान्यतया तुलना में करीब 11.33 प्रतिशत प्रमुख गेहुं उत्पादक राज्यों की ज्यादा है। रबी सीजन की प्रमुख तुलना में पहले बोआई होती है। दलहन फसल चना है।तिलहन की खुदरा बाजार में गेहूं की अच्छी बोआई 27 अक्टूबर तक करीब कीमत और एमएसपी में तेज 28.4 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो

### सरकार ने बढ़ाई ख़ुले बाजार में गेहूं की बिक्री

पिछले साल की समान अवधि की

तुलना में 15.45 प्रतिशत ज्यादा है।

उधर केंद्र सरकार ने आज खुले बाजार में बिक्री की योजना के तहत 1 नवंबर से गेहूं की बिक्री की मात्रा अहम है। आंकड़ों से पता चलता है बढ़ाकर 200 टन कर दी है। गेहूं

और आटे की कीमत में आगे और स्थिरता लाने की कवायद के तहत यह फैसला किया गया है।

80.95

11.33

48.84

15.45

घरेल बाजार में गेहं की आपर्ति बढाने के लिए आटा मिलें और छोटे व्यापारियों जैसे थोक खरीदार ई-नीलामी में 200 टन के लिए बोली लगा सकेंगे, जबकि फिलहाल खले बाजार में बिक्री की योजना (ओएमएसएस) के तहत यह मात्रा 100 टन है। खाद्यान्न की खरीद और वितरण के लिए सरकार की नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ओएमएसएस के तहत अपने बफर स्टॉक से गेहुं बेच रहा है।

बयान में कहा गया है कि देश में प्रत्येक ई-नीलामी में पेश की जाने बढ़ाकर 3 लाख टन कर दी गई है। बोली की मात्रा में वृद्धि का उद्देश्य

खुले बाजार में गेहं की उपलब्धता को बढ़ाना और गेहुँ की कीमतों को स्थिर करना है। सरकारी उपक्रम एफसीआई इन वस्तुओं की खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए साप्ताहिक ई-नीलामी के माध्यम से 28 जन से ओएमएसएस के तहत आटा मिलें और छोटे व्यापारियों जैसे थोक खरीदारों को केंद्रीय पूल से गेहूं और चावल बेच रहा है। 26 अक्टूबर को ई-नीलामी के 18वें दौर में 2,318 सफल बोलीदाताओं को लगभग 1.92 लाख टन गेहूं बेचा गया।अच्छे व औसत गुणवत्ता वाले गेहूं का भारित औसत मुल्य 2,251.57 रुपये प्रति क्विंटल है, जबिक आरक्षित मुल्य 2,150

मंत्रालय ने कहा कि कारोबारियों को ओएमएसएस के तहत गेहुं की बिक्री के दायरे से बाहर रखा गया है, जिससे स्टॉक जमा करने से रोका जा सके। प्रसंस्करणकर्ताओं के फ्लोर मिलों पर नियमित जांच और निगरानी की जा रही है. जिन्होंने ओएमएसएस के तहत गेहूं खरीदा है। बयान के मुताबिक 16 अक्टूबर से अबतक 1,627 जांच

रुपये प्रति क्विंटल है।

## बढ़े दाम तो गेहूं की रिकॉर्ड बोआई



प्याज की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत 57 प्रतिशत बढ़कर 47 रुपये प्रति किलो होने के बाद केंद्र ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए खुदरा बाजारों में 25 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर 'बफर स्टॉक' से प्याज की बिक्री बढ़ाने का शुक्रवार को फैसला किया। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्याज की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत शुक्रवार को बढ़कर 47 रुपये प्रति किलो हो गई, जो एक साल पहले समान अवधि में 30 रुपये प्रति किलो थी। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को प्याज की खुदरा कीमत 40 रुपये प्रति किलो थीं, जबकि एक साल पहले समान अवधि में यह 30 रुपये प्रति किलो

# 3000 ई बसों की निविदा अगले सप्ताह : पुरी

ध्रुवाक्ष साहा नई दिल्ली, 27 अक्टूबर

बढ़ोतरी प्रमुख वजहों में से है,

जिसके कारण किसानों ने गेहं की

बोआई का फैसला किया है। अगर

रबी की फसल में गेहं, सरसों और

चने की फसल अच्छी रहती है तो

इससे खाद्य महंगाई दर घट सकती

है, जो 2024 के आम चुनाव को

देखते हुए केंद्र सरकार के लिए बहुत

पीएम-ई बस सेवा के तहत 3000 इलेक्ट्रिक बसों की निविदा अगले सप्ताह जारी की जाएगी। यह जानकारी केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने शुक्रवार को दी। पुरी ने अर्बन मोबिल्टी इंडिया कॉन्फ्रेंस ऐंड एक्सपो 2023 के संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये निविदाएं शीघ्र ही जारी की जाएंगी।

जोशी ने कहा, 'हमने आरएफपी (प्रस्ताव का अनुरोध) को अंतिम रूप दे दिया है। हम आंतरिक मंजुरी ले रहे हैं।लिहाजा हम अगले सप्ताह के अंत तक 3000 बसों की निविदा जारी कर सकेंगे।' उन्होंने यह जानकारी भी दी कि उत्तर प्रदेश सरकार की 2000 बसों के प्रस्ताव पर कार्य जारी है।

(₹ In Lakhs except EPS)

99.736.17 1.55.902.33

ended

March 31

2023

Audited

524.07

524.07

481.31

(1,585.36)

8,479.63

3.66

2,777.00

1,54,332.81

**Half Year** 

ended

September

30, 2023

Unaudited

26.062.94

26,062.94

19,464.96

18,432.36

9,920.66

Nil

3.86

21.20

21.20

2.777.00



पीएम ई बस सेवा के तहत सार्वजनिक व निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें मुहैया करवाई जाएंगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त में 57.000 करोड़ रुपये के निवेश की इजाजत दे दी थी। जोशी ने बताया, 'केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजुरी मिलने के बाद हमने राज्यों को प्रस्ताव भेजने के लिए एक महीने का समय दिया था। इन प्रस्तावों पर अन्य राज्य भी कार्य कर रहे हैं।'

दरअसल पीएम ई बस सेवा की शुरुआत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में इलेक्ट्रिक बसों का अपनाना धीरे होने के कारण की गई थी। इस योजना से ई बसों का अपनाया जाना तेज होगा। जीवाश्म इंधन से चलने वाली बसों के कारण भारत को ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य हासिल करने में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है।

### फरवरी में दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का विस्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्री मोदी ने 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-मेरठ रिजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम (आरआरटीएस) के पहले खंड का उद्घाटन किया। पुरी ने बताया कि आरआरटीएस का अगला खंड जनवरी – फरवरी से शुरू होगा। अभी 17 किलोमीटर लंबे आरआरटीएस को लोगों के लिए खोला गया है।

## सेंट्रल प्रॉसेसिंग सेंटर शुरू करेगा मंत्रालय

रुचिका चित्रवंशी नई दिल्ली, 27 अक्टूबर

कंपनी मामलों का मंत्रालय (एमसीए) कंपनियों से जुड़े सभी अनुपालन फॉर्मों के निपटान के लिए सेंट्रल प्रॉसेसिंग सेंटर (सीपीसी) आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि क्षेत्रीय निदेशकों के कार्यालय और कंपनी रजिस्टार कार्यालय का बोझ कम करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है, जिससे उन्हें प्रवर्तन संबंधी मामलों के लिए पर्याप्त वक्त मिल सके।

गैर एसटीपी फॉर्मों या गैर स्टेट फाइलिंग के विशेष क्षेत्र की फाइलिंग पर ध्यान देने के लिए सीपीसी के साथ मिलकर मंत्रालय चौथा केंद्र शुरू करेगा। एसटीपी फॉर्मों को कंपनी रजिस्टार द्वारा बगैर किसी जांच के सीधे रिकॉर्ड में ले लिया जाता है। इसमें शेयर पंजी और डिबेंचर में बढ़ोतरी, उसे भुनाने या रद्दीकरण, जमा की वापसी, शुल्क

का पंजीकरण, निदेशकों की नियुक्ति से जुड़े फॉर्म शामिल होंगे। सालाना आम बैठकें करने की अवधि में बढ़ोतरी, प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद के लिए पेशकश पत्र, सीएसआर गतिविधियों के लिए इकाइयों के पंजीकरण से जुड़े फॉर्मों का निपटान भी सीपीसी करेगा।

उद्योग उम्मीद कर रहा है कि कंपनी मामलों का मंत्रालय अपने सीपीसी में फॉर्मों के निपटान के लिए जरूरी मानक निपटान प्रक्रिया की व्यवस्था करेगा। कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के पार्टनर

अंकित सिंघी ने कहा, 'सीपीसी के तहत फॉर्मों की प्रॉसेसिंग का केंद्रीकरण करना एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव है। बहरहाल मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि इसमें कंपनियों, पेशेवरों और अन्य हिस्सेदारों के बीच दोतरफा खुली संवाद की व्यवस्था हो, जिससे अनावश्यक कठिनाइयों को रोका जा सके, जैसा सीआरसी में होता है।'

## आम का निर्यात बढ़ा

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर

भारत के आम निर्यात में 2023

सीजन में 19 प्रतिशत की तेज बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के अनसार फलों की तेज मांग रहने के कारण कल निर्यात 47.98 अरब डॉलर का रहा है।


मात्रा के हिसाब से देखें तो भारत ने चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 5 महीने में 47.98 अरब डॉलर के 27.330 टन आम का निर्यात किया है। यही मोटे तौर पर देश में आम का सीजन होता है। मात्रा के

हिसाब से भी आम निर्यात 19 प्रतिशत बढा है।भारत सामान्यतया आम का सीजन अप्रैल के करीब शरू होता है और जलाई के अंत या अगस्त तक चलता है।

विश्व में आम के प्रमख निर्यात केंद्रों में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पश्चिम अफ्रीकी देश जैसे कतर, संयुक्त अरब अमीरात व अन्य देश शामिल हैं।

2023 सीजन में भारत ने 41 देशों में आम का निर्यात किया है और कुछ नए देशों जैसे ईरान. मॉरिशस. चेक रिपब्लिक और नाइजीरिया में आम भेजे हैं। सरकार भी फलों के निर्यात के लिए कदम उठा रही है।

## बीएस सूडोकू 4805



### परिणाम संख्या 4804



कैसे खेलें ?

बहुत मुश्किल

हर रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में 1 से लेकर 9 तक की संख्या भरें।

पंजाब

### \*Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit & Loss in accordance with Ind-AS Rules/AS Rules, whichever is applicable. (₹ in Lakhs)

| Brie      | Brief of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2023 |   |           |  |                                 |  |  |
|-----------|--|---|-----------|--|---------------------------------|--|--|
| S.<br>No. | Particulars  | Quarter ended<br>September 30,<br>2023 Quarter ended<br>September 30,<br>2022 |           | Half Year ended<br>September 30,<br>2023 | Year ended<br>March 31,<br>2023 |  |  |
|           |  | Unaudited   | Unaudited | Unaudited                                | Audited                         |  |  |
| 1         | Total Income   | 49,193.51   | 32,505.12 | 90,912.49                                | 1,76,154.48                     |  |  |
| 2         | Profit / (Loss) Before Tax   | 13,834.63   | 7,141.87  | 25,321.77                                | 34,100.04                       |  |  |
| 3         | Profit / (Loss) After Tax  | 10,326.67   | 5,462.04  | 18,918.00                                | 26,432.92                       |  |  |

### Notes:

Place: Gurugram

Date: 27.10.2023

- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of Satin Creditcare Network Limited ('the Company') in their meeting held on October 27, 2023.
- The above is an extract of the detailed format of Results filed with the Stock Exchange(s) under Regulations 33, 52 & 63 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ('the Listing Regulations'), as amended from time to time. The full format of the Results are available on the website of the Company (i.e. www.satincreditcare.com) and on the websites of the Stock Exchange(s) (i.e. NSE at www.nseindia.com and BSE at www.bseindia.com)
- For the other line items referred in Regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) and can be accessed through the website link given in poin
- These Consolidated Results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND-AS) notified by the Ministry of Corporate Affairs.

For Satin Creditcare Network Limited

(Harvinder Pal Singh) Chairman cum Managing Directo DIN: 00333754

### क्षेत्रीय मंडियों के भाव

राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 62,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर अपरिवर्तित बना रहा। हालांकि, चांदी 400 रुपये टुटकर 74,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। वैश्विक बाजारों में सोना गिरावट के साथ 1,987 डॉलर प्रति औंस रह गया। चांदी की कीमत भी गिरावट के साथ 22.85 डॉलर प्रति औस रह गई।

कानपर

गेहूं दड़ा 2725/2750, गेहं शरबती 3600/3700, चावल शरबंती सेला 4500/4600, स्टीम 5500/5600, लालमती 5800/5900, चावल (सोना) 5600/5700, दाल अरहर सवा नं. 15800/ 16200, पटका 16500/17200, रिजैक्शन 11800/12000, चना दाल 7450/7550, चना देशी छना 7200/7250, चना चापा छना 7400/7500, एग्रो प्योर बेसन 2950, मटर देशी 5600/5700, उड़द साबुत (काला) 10500/12700, दाल उड़द (काली)

11000/13200, उड़द धोया 10500/

12500, मसूर छोटी 6500/6800, मलका

लखनऊ

7400/7700, जीरा 55000/ 63500 लालिमर्च गुंदूर 24000/ 33000, हल्दी निजाम फली (50 किलो) 6700/ 6800, धनिया एमपी 8200/12000, छोटी इलायची (किलो) 1700/2650, बड़ी इलायची 1050/1060, कालीमिर्च (किलो) 650/ 720, सुपारी (किलो) 485/550, सौंफ मोटी 29000/33000, मंगरैल 17000/18000, चिरौंजी (किलो) 1400/1500,

दिल्ली

गेहूं 2700/2750, जौ 1900/1925, चावल मस्री 2800/2900. चावल मोटा 2800/2900. देशी चना 6600/6625. चना छना 6800/6900, दाल चना 7350/7550. देशी मटर 5600/5700, पिचकी 4200 /4300, मटर दाल 5700/5800, अरहर लेमन 12200/12250, दाल अरहर 16000 /17000, स्पेशल 15000 /15200,उड़द एसक्यू 10650/10700, एफएक्यू 9900/ 9925, राजमा चित्रा 9600/14300, मुंग 8000/ 8500, मसूर छोटी 6500/6700, छांटी 7400/7600<sup>°</sup>, सरसों 5400/5500, तिल सफेद 15500/ 15900, सोया (टीन)

### उत्तर प्रदेश राजस्थान 1750/1800. तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1950/2100, सरसों खल 3000/ दाल (जीएसटी अतिरिक्त): मंग मोगर 3100, पामोलिन 1900/1950, वनस्पति घी

चंदौसी (प्रति किलो): मैन्था ऑयल 980, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1145, फ्लैक 1100, सिंथेटिक फ्लैक 1060, डीएमओ 802, टरपीन लैस बोल्ड 1170 मजफ्फरनगर

(यूपी एफओआर) 1700/1800, मधुसूदन

देशों घी 7900, वासुदेव 7600, परम प्रीमियम

7900, पदम श्री 7900, लीलाधर 7850,

अलसी 6800/7000, धनियाः लोकल

8200/8300, राजस्थान 8900/9100,

बढ़िया 9600/12400, हल्दी 13400/

14200. जीरा 56000/64500. 2500.

गुंड़ (40 किलो): नया लड़ांडू 1300/1420, खुरपा 1260/1310,चाकू 1280/1480, रसंकट 1080/1110, शक्कर 1500/ 1520, चौरसा &, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त)ः खतौली 4100, सिहोरा &, देवबंद 4080, थाना भवन 4040, बुढ़ाना ४०५०, शामली ४१००,

9800/10000, मोटा 10400/10500, उड़द मोगर 9800/10100, मोटा 11000/11500, चौला मोगर 8100/8200, मोठ मोगर 8000/8100, मंग दाल छिलका देशी 9500/10000, मलका 7200/7400, अरहर 14800/16000, मटर दाल 5900/ 6000, चना दाल मीडियम 7200/7300, बोल्ड 7400/7500. दलहनः उडद साबत देशी 8700/8800. मटर सफेद 5700/5800. मोठ साबुत 6600/6700, काबली चना 13000/14000, चना (डिली.) 6450 /6500, मुंग 8200/8600, राजमा शर्मिली 12500/13000, राजमां चित्रा 11500/ 13500, हल्दी निजामाबाद 13800/14200, सांगली 14500/15000, हल्दी राजापुरी 20000/21500, लालिमर्च 17000/ 30000, कालीमिर्च (किलो) 625/725, धनिया 8700/12500, जीरा 62000 /70000, अजवायन 20000/30000, सौंफ 25000/40000, मेथी 7500/7800, मेथी मशीन क्लीन 8300/8500, इमली 3900/4300, गोला टिपटूर 11000 /13000, चावल डीबी 8100/8200. गेहं (मिल) 2700/2750, मक्की 2200/ 2225, बाजरा 2200/2225, जौ 1950 /1975, ग्वार लूज 5550/5600, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, ज्वार बेस्ट क्वालिटी 2900/3000, तेल-तिलहनः सरसों(मिल पहुंच) 6000/6025, सरसों एक्सपेलर निवाई &, कोल्हु कच्ची घानी टोंक 10900, राइसब्रान डिऑयल्ड कंटीन्यूअस 1750. डीओसी (टन): सरसों जयपर 27000, कोटा 26500,अलवर 26500.

जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)136, राइसब्रान (अखाद्य) 134, खल सरसों 3050, डीओसीः राइसब्रान बैच सफेद 1300, लाल &, कंटीन्यूअस 1300, सरसों (टन) 27800, सूरजमुखी (टन) 26000, अनाजः गेहूं 2650/2725, आटा (50 किलो) 1500, मैदा 1600, चोकर (45 किग्रा) 1100, चोकर (30 किग्रा) 700, मक्की बिहार 2150/2220

### **डिस्क्लेमर..** बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉरपोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितयों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिज्जनेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिज्जनेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिज्जनेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। मैं. बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. का सर्वाधिकार स्रक्षित है बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस प्रकार का निषिद्ध कार्य किए जाने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।